

Deu

Chapter 18

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 לֹא- יְהִיָּה לְכַהֲנִים לְלוֹיִם כָּל- שֹׁבֵט לְוִי הַלֵּךְ וּנְחֻלָּה עִם- יִשְׂרָאֵל
 नहीं- होगा के-लिए-याजकों लेवीय सब- गोत्र हिस्सा और-विरासत साथ- इस्राएल
[H3478](#) [H5159](#) [H3878](#) [H7626](#) [H3605](#) [H3881](#) [H3548](#) [H1961](#) [H3808](#)

אֵשׁ יְהוָה וְנַחֲלָתוֹ יֹאכְלוּ:
 अग्नि-भेंटों की यहोवा-उसकी और-विरासत-खाएंगे
[H0801](#) [H3068](#) [H5159](#) [H0398](#)

“लेवी का परिवार समूह इस्राएल में कोई भूमि का भाग नहीं पाएगा। वे लोग याजक के रूप में सेवा करेंगे। वे अपना जीवन यापन उस भेंट को खाकर करेंगे जो आग पर पकेगी और यहोवा को चढ़ाई जाएगी। लेवी के परिवार समूह के हिस्से में वही है।

2 וְנַחֲלָה לֹא- יְהִיָּה לּוֹ בְּקֶרֶב אֶחָיו יְהוָה הוּא נַחֲלָתוֹ כְּאִשֶׁר דָּבַר-
 और-विरासत नहीं- होगी- को-उस में-बीच भाइयों-उसके यहोवा है-वह विरासत-उसकी जैसा बोला-
[H1696](#) [H5159](#) [H1931](#) [H3068](#) [H0251](#) [H7130](#) [H1961](#) [H3808](#) [H5159](#)

לּוֹ:
 को-उस

वे लेवीवंशी लोग भूमि का कोई हिस्सा अन्य परिवार समूहों की तरह नहीं पाएंगे। लेवीवंशियों के हिस्से में स्वयं यहोवा है। यहोवा ने इसके लिए उनको वचन दिया है।

3 וְזָה יְהִיָּה מִשְׁפֵּט הַכַּהֲנִים מֵאֵת הָעָם מֵאֵת לֹוֹ הַכֹּהֲנִים הַזֶּה אִם- שׁוֹר
 और-यह होगी न्याय याजकों-का से-पास से-पास लोगों है-वह बलि-चढ़ाने-वालों बलि-की अगर- बैल
[H7794](#) [H2077](#) [H2076](#) [H0854](#) [H0854](#) [H3548](#) [H4941](#) [H1961](#) [H2088](#)

אִם- שָׁה וְנָתַן לְכֹהֵן הַזֶּה וְהִלְחִימוּ אֹתוֹ:
 अगर- भेड़ा और-देगा को-याजक कथा और-गाल और-ओझरी
[H6896](#) [H3895](#) [H2220](#) [H3548](#) [H5414](#) [H7716](#)

“जब तुम कोई बैल, या भेड़ा बली के लिए मारो तो तुम्हें याजकों को ये भाग देने चाहिए: कथा, दोनों गाल और पेट।

4 רֵאשִׁית וְגִנְגָּה דְּתִירֹשׁוֹ וְיִצְהָרָה וְרֵאשִׁית זֵיט וְצֹאנָה וְתִתֵּן לּוֹ:
 पहला-फल अनाज-तेरे दाख-रस-तेरे और-तेल-तेरे और-पहला-फल ऊन की-तेरी-भेड़ा-बकरियों-तेरी-देगा-को-उस
[H5414](#) [H6629](#) [H1488](#) [H7225](#) [H3323](#) [H8492](#) [H1715](#) [H7225](#)

तुम्हें याजकों को अपना अन्न, अपनी नयी दाखमधु और अपनी पहली फसल का तेल देना चाहिए। तुम्हें लेवीवंशियों को अपनी भेड़ों का पहला कटा ऊन देना चाहिए।

5 כִּי בּוֹ בָחַר יְהוָה מִכָּל- שְׁבֵטֵי לְשֵׁמֹתָ בְּשֵׁם-
 क्योंकि मैं-उस चुना-है यहोवा से-सब- एलोहीम-तेरे-ने गोत्रों-तेरे के-लिए-खड़े-होने के-लिए-सेवा-करने में-नाम-
[H8034](#) [H8334](#) [H5975](#) [H7626](#) [H3605](#) [H0430](#) [H3068](#) [H0977](#)

יְהוָה הוּא וּבָנָיו כָּל- הַיָּמִים:
 यहोवा-के वह और-बेटे-उसके सब- दिनों
[H1931](#) [H3068](#) [H3117](#) [H3605](#)

क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सभी परिवार समूहों की देखभाल करता था और उसने लेवी और उनके वंशजों को सदा के लिए याजक के रूप में सेवा करने के लिये चुना है।

6
 וְכִי- יבֹא הַלְוִי מֵאֶחָד שְׂעָרֶיךָ מִכָּל- יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר- הוּא נֹר שָׁם
 और-यदि- आएगा लेवी से-किसी-एक फाटकों-तेरे से-सब- इस्राएल जहां- वह रह-रहा-है
 H0935 H3881 H0259 H8179 H3605 H3478 H1931 H8033

וְבָא וְכָל- אֵת נַפְשׁוֹ אֶל- הַמָּקוֹם אֲשֶׁר- יבְחַר יְהוָה:
 और-आएगा में-सब- इच्छा प्राण-उसके की-ओर- जगह जो- चुनेगा यहीवा
 H0935 H3605 H0185 H5315 H0413 H4725 H0977 H3068

“लेवीवंशी जो इस्राएल में तुम्हारे नगरों में से किसी में रहता है, अपना घर छोड़ सकता है और यहीवा के विशेष स्थान पर जा सकता है।

7
 וְשָׂרְתָּ בְשֵׁם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ כְּכֹל- אֲחֵינוּ הַלְוִיִּם הָעֹמְדִים שָׁם לְפָנַי
 और-सेवा-करेगा और-सेवा-करेगा मैं-नाम यहीवा एलोहीम-उसके जैसी-सब- भाइयों-उसके लेवी खड़े-हुए वहां सामने
 H8334 H8034 H3068 H0430 H3605 H0251 H3881 H5975 H8033 H6440

יְהוָה:
 यहीवा-के
 H3068

तब यह लेवीवंशी यहीवा अपने परमेश्वर के नाम पर सेवा कर सकता है। उसे परमेश्वर के विशेष स्थान में वैसे ही सेवा करनी चाहिए जैसे उसके भाई अन्य लेवीवंशी करते हैं।

8
 חֶלֶק חֶלֶק וְאֵלֹהֵינוּ לְבַד מִמִּכְרֵינוּ עַל- הָאֲבוֹתָ: ס
 हिस्सा हिस्सा खाएंगे अलग बिक्री-उसकी-से पर- पिताओं
 H0398 H0905 H4465 H0001

वह लेवीवंशी, अपने परिवार को सामान्य रूप से मिलने वाले हिस्से के अतिरिक्त अन्य लेवीवंशियों के साथ बराबर का हिस्सेदार होगा।

9
 כִּי אֵתָּה בָּא אֶל- הָאָרֶץ אֲשֶׁר- יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נָתַן לָנוּ לֹא-
 जब तू आ-रहा-है की-ओर- देश जो- यहीवा एलोहीम-तेरा दे-रहा-है को-तुझ नहीं-
 H0935 H0413 H0776 H3068 H5414 H3808

תִּלְמַד לְעֲשׂוֹת כְּתוּעָבוֹת הַגּוֹיִם הָהֵם:
 सीखेगा करने-के-लिए जैसे-घृणाओं की-जातियों-उन
 H3925 H8441 H1992

“जब तुम उस राष्ट्र में पहुँचो, जो यहीवा तुम्हारा परमेश्वर तुमको दे रहा है, तब उस राष्ट्र के लोग जो भयंकर काम वहाँ कर रहे हो उन्हें मत सीखो।

10
 לֹא- יִמָּצָא בְךָ מַעֲבִיר בְּנוֹ- וּבְתוֹ בְּאֵשׁ קִסָּם קִסָּם
 नहीं- पाया-जाएगा में-तुझ गुज़ारने-वाला बेटे-अपने- और-बेटी-अपनी में-आग और-खोजने-वाला भाग्य-भाग्य
 H3808 H4672 H0784 H1323 H7081 H7080

מְעוֹגֵן וּמְנַחֵשׁ וּמְכַשֵּׁף:
 शकुन-बताने-वाला और-जादूगर और-टोनहा
 H5172 H3784

अपने पुत्रों और पुत्रियों की बलि अपनी वेदी पर आग में न दो। किसी ज्योतिषी से बात करके या किसी जादूगर, डायन या सयाने के पास जाकर यह न सीखो कि भविष्य में क्या होगा?

11
 וְהִבְרָתְךָ וְהִבְרָתְךָ וְהַבְרָתְךָ וְהַבְרָתְךָ וְהַבְרָתְךָ וְהַבְרָתְךָ
 और-बांधने-वाला और-बांधने-वाला और-बांधने-वाला और-बांधने-वाला और-बांधने-वाला और-बांधने-वाला
 H2266 H2267 H7592 H0178 H3049 H4191 H0413 H1875

किसी भी व्यक्ति को किसी पर जादू—टोना चलाने का प्रयत्न न करने दो और तुम में से कोई व्यक्ति ओझा या भूतसिद्धक नहीं बनेगा। और कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का प्रयत्न न करेगा जो मर चुका है।

12
 כִּי- תוֹעֵבָת יְהוָה כָּל- עֲשָׂה וּבְגִלְלָתְךָ וּבְגִלְלָתְךָ וּבְגִלְלָתְךָ וּבְגִלְלָתְךָ
 क्योंकि- घृणा यहीवा-की सब- करने-वाले और-के-कारण और-के-कारण और-के-कारण और-के-कारण
 H8441 H3068 H3605 H0428 H0428 H1558 H0428 H3068 H0428 H0428 H0428

מִזְרֵשׁ מִזְרֵשׁ מִזְרֵשׁ:
 निकाल-रहा-है को-उन से-सामने-तेरे
 H3423 H0853 H6440

यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है जो ऐसा करते हैं। यही कारण है कि वह तुम्हारे सामने इन लोगों को देश छोड़ने को विवश करेगा।

13 תַּמִּים תִּהְיֶה עִם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ :
— एलोहीम-तेरे-के यहोवा साथ होगा सिद्ध
H0430 H3068 H1961 H8549

तुम्हें यहोवा अपने परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और उसके प्रति निष्ठावान होना चाहिए।

14 וְכִי תִּזְכְּרוּ הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אֶתְּחַהֵב תּוּ יוֹרֵשׁ אוֹתָם אֶל- מְעַנְנִים
शकुन-बताने-वालौ की-ओर- को-उन अधिकार-कर-रहा-है तू जो ये जातियां क्योंकि
H0413 H0853 H3423 H0428

וְאֶל- קְסָמִים יִשְׁמְעוּ וְאֵתְּחַהֵב לֹא יִשְׁמְעוּ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ :
एलोहीम-तेरे-ने यहोवा को-तुझ दिया-है ऐसे नहीं और-तू सुनती-हैं भाग्य-बताने-वालौ और-की-ओर-
H0430 H3068 H5414 H3808 H8085 H7080 H0413

“तुम्हें उन राष्ट्रों के लोगों को बलपूर्वक अपने देश से हटा देना चाहिए। उन राष्ट्रों के लोग ज्योतिषियों और जादूगरों की बात मानते हैं। किन्तु यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें वैसा नहीं करने देगा।

15 נְבִיא מִקְרָבָהּ מֵאֲחֵיךָ כְּמִנִּי יָקִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ אֵלֶינוּ תִּשְׁמָעוּן :
सुनोगे की-ओर-उस एलोहीम-तेरा यहोवा के-लिए-तुझ उठाएगा जैसा-मुझ से-भाइयों-तेरे से-बीच-तेरे नबी
H8085 H0413 H0430 H3068 H3644 H0251 H7130 H5030

यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे पास अपना नबी भेजेगा। यह नबी तुम्हारे अपने ही लोगों में से आएगा। वह मेरी तरह ही होगा। तुम्हें इस नबी की बात माननी चाहिए।

16 כָּל־ אֲשֶׁר- שְׂאֵלָה מֵעַם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ בְּחֹרֵב בְּיָוִם הַקִּהָל לֹא אָמַר
नहीं कहते-हुए सभा-के में-दिन में-होरेब एलोहीम-तेरे यहोवा से-पास मांगा-था जो- जैसे-सब
H3808 H0559 H6951 H3117 H2722 H0430 H3068 H7592 H3605

אֶתְּחַהֵב לְשָׁמַע אֶת- קוֹל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ הַזֶּה הַזֶּה לֹא
नहीं- यह बड़ी आग और-को- एलोहीम-मेरे यहोवा आवाज़ को- के-लिए-सुनने जारी-रखूंगा
H3808 H2063 H0784 H0853 H0430 H3068 H0853 H8085 H3254

אָרְאָה עוֹד וְלֹא אָמוֹת :
देखूंगा फिर और-नहीं मरूंगा
H4191 H3808 H5750 H7200

यहोवा तुम्हारे पास इस नबी को भेजेगा क्योंकि तुमने ऐसा करने के लिए उससे कहा है। उस समय जब तुम होरेब (सीनै) पर्वत क चारों ओर इकट्ठे हुए थे, तुम यहोवा की आवाज और पहाड़ पर भीषण आग को देखकर भयभीत थे। इसलिए तुमने कहा था, हम लोग यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज फिर न सुने। ‘हम लोग उस भीषण आग को फिर न देखें। हम मर जाएंगे!’

17 וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי הִיטִיבוּ אֲשֶׁר דִּבְרוּ :
और-कहा और-कहा को-मुझ यहोवा और-कहा जो अच्छे-किए-हैं बोले-थे
H3190 H0413 H3068 H0559 H1696

“यहोवा ने मुझसे कहा, ‘वे जो चाहते हैं, वह ठीक है।’

18 נְבִיא אֲקִים לָהֶם מִקְרָב לָהֶם אֲקִים וַיֹּאמְרוּ בְּפִי וְדַבַּר
और-बोलेगा मैं-मुख-उसके बातें-मेरी और-दूंगा जैसा-तुझ भाइयों-उनके से-बीच के-लिए-उन उठाऊंगा नबी
H1696 H6310 H1697 H5414 H3644 H0251 H7130 H1992 H5030

אֶלֵיהֶם אֶתְּחַהֵב אֶת- כָּל- אֲשֶׁר אֶצְרָגוּ :
को-उन को-उन को-सब- जो आज़ा-दूंगा-उसे
H3605 H0853 H0413 H6680

मैं तुम्हारी तरह का एक नबी उनके लिए भेज दूँगा। यह नबी उन्हीं लोगों में से कोई एक होगा। मैं उसे वह सब बताऊँगा जो उसे कहना होगा और वह लोगों से वही कहेगा जो मेरा आदेश होगा।

19
 אֲנֹכִי בְשֵׁמִי יִדְבַּר אֲשֶׁר דְּבָרֵי אֶל- יִשְׁמַע לֹא- אֲשֶׁר הָאִישׁ וַיְהִי אֲנֹכִי
 मैं में-नाम-मेरे बोलेंगा जो बातों-मेरी की-ओर- सुनेगा नहीं- जो पुरुष और-होगा
[H0595](#) [H8034](#) [H1696](#) [H1697](#) [H0413](#) [H8085](#) [H3808](#) [H0376](#) [H1961](#)

אֲדַרְשׁ מֵעִמוֹ :
 लेखा-मांगूंगा से-पास-उसके
[H1875](#)

यह नबी मेरे नाम पर बोलेंगा और जब वह कुछ कहेगा तब यदि कोई व्यक्ति मेरे आदेशों को सुनने से इन्कार करेगा तो मैं उस व्यक्ति को दण्ड दूँगा।'

20
 אֶת- הַנְּבִיאַ אֲשֶׁר לֹא- אֶת- בְּשֵׁמִי דְבָרָה לְדַבֵּר יִזְדָּו אֲשֶׁר הַנְּבִיאַ אֶת-
 नहीं- जो को में-नाम-मेरे बात के-लिए-बोलने अहंकार-करेगा जो नबी परंतु
[H3808](#) [H0853](#) [H8034](#) [H1697](#) [H1696](#) [H2102](#) [H5030](#) [H0389](#)

הַהוּא : הַנְּבִיאַ וְנָתַת אֲחֵרִים אֱלֹהִים בְּשֵׁם יִדְבַּר וְאֲשֶׁר לְדַבֵּר וְאֲשֶׁר לְדַבֵּר וְאֲשֶׁר לְדַבֵּר וְאֲשֶׁר לְדַבֵּר וְאֲשֶׁר לְדַבֵּר
 वह नबी और-मरेगा अन्य एलोहीम में-नाम बोलेंगा और-जो के-लिए-बोलने आज्ञा-दी-थी-मैंने-उसे
[H1931](#) [H5030](#) [H4191](#) [H0312](#) [H0430](#) [H8034](#) [H1696](#) [H1696](#) [H6680](#)

"किन्तु कोई नबी कुछ ऐसा कह सकता है जिसे करने के लिए मैंने उसे नहीं कहा है और वह लोगों से कह सकता है कि वह मेरे स्थान पर बोल रहा है। यदि ऐसा होता है तो उस नबी को मार डालना चाहिए या कोई ऐसा नबी हो सकता है जो दूसरे देवताओं के नाम पर बोलता है। उस नबी को भी मार डालना चाहिए।

21
 וְהָיָה דְבָרוֹ לֹא- אֲשֶׁר אֶת- הַדְּבָרָה אֶת- גִּדְעַ אִיכָה בְּלִבְבֵךְ תֹּאמַר וְכִי
 यहोवा-ने बोली-है-उसे नहीं- जो बात को- जानेंगे कैसे में-मन-तेरे कहेगा और-यदि
[H3068](#) [H1696](#) [H3808](#) [H1697](#) [H0853](#) [H3045](#) [H3824](#) [H0559](#)

तुम सोच सकते हो, 'हम कैसे जान सकते हैं कि नबी का कथन, यहोवा का नहीं है?'

22
 הַדְּבָרָה הוּא יָבוֹא וְלֹא יִדְבַּר יְהוָה וְלֹא- יְהוָה יְהוָה בְּשֵׁם הַנְּבִיאַ יִדְבַּר אֲשֶׁר
 बात वह आएगा और-नहीं बात होगी और-नहीं- यहोवा-के में-नाम नबी बोलेंगा जो
[H1697](#) [H1931](#) [H0935](#) [H3808](#) [H1697](#) [H1961](#) [H3808](#) [H3068](#) [H8034](#) [H5030](#) [H1696](#)

אֲשֶׁר לֹא- דְבָרוֹ יְהוָה בְּזוֹנוֹ דְבָרוֹ לֹא- הַנְּבִיאַ דְבָרוֹ בְּזוֹנוֹ : ס
 जो नहीं- है-उसे यहोवा-ने बोलेंगे में-अहंकार यहोवा-ने बोली-है-उसे नहीं- जो
[H3808](#) [H5030](#) [H1696](#) [H2087](#) [H3068](#) [H1696](#) [H3808](#)

यदि कोई नबी कहता है कि वह यहोवा की ओर से कुछ कह रहा है, किन्तु उसका कथन सत्य घटित नहीं होता, तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि यहोवा ने वैसे नहीं कहा। तुम समझ जाओगे कि यह नबी अपने ही विचार प्रकट कर रहा था। तुम्हें उससे डरने की आवश्यकता नहीं।